

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2017—ज्यैष्ठ 19, शक 1939

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.